



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2925]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2016/अग्राहायण 22, 1938

No. 2925]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2016/AGRAHAYANA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4016(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए एक्सटेंशन के 0/000 कि.मी. से 18/980 कि.मी. तक के भूखण्ड (दौसा—लालसोट—कोथून सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, दौसा, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए एक्सटेंशन के 0/000 कि.मी. से 18/980 कि.मी. तक (दौसा—लालसोट—कोथून सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दौसा	(1) दौसा	(1) दौसा कलां	1210/1	निजी	गै.मु.	0.1624
				1210/2	सरकारी	गै.मु.नहर	1.2212
				1121	निजी	नहरी	0.2084

			1122	निजी	नहरी	0.5554
			1123	निजी	चाही 1ध्जाव 1	0.1650
			1124/1	निजी	चाही 1	0.0370
			1124/2	निजी	चाही 1	
			1130	निजी	गै.मु.चाह	0.0018
			1131	निजी	चाही 1	0.0500
			1132/1	निजी	नहरी	0.0515
			1133	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.6050
			1134	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0102
			1349	निजी	बारानी 1	0.0232
			1350	निजी	बारानी 1	0.0470
			1351	निजी	बारानी 1	0.0415
			1352	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0621
			1352/1	सरकारी	गै.मु.आबादी	
			1353	निजी	बारानी 1	0.0722
			1359/1	निजी	बारानी 1	0.0752
			1359	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.1252
			1360	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0482
			1361/1	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0995
			1361	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0714
			1362	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0422
			1363	सरकारी	गै.मु.	0.0360
			1365	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0725
			1365/1	सरकारी	गै.मु.आबादी	
				कुल		3.8841

[फा.सं. भाराराप्रा / 31015 / 16 / पीआईयू / दौसा / एलए]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 4016(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11A-Ext, in the stretch of land from Km 0/000 to Km 18/980 (Dausa-Lalsot-Kothoon Section) in the district of Dausa in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Dausa, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 18.980 (Dausa-Lalsot-Kothun Section) of NH-11A Ext in the State of Rajasthan

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in Hactare)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dausa	(1) Dausa	(1) Dausa Kala	1210/1	Private	Gai.Mu.	0.1624
				1210/2	Govt.	Gai.Mu.Nahar	1.2212
				1121	Private	Nahari	0.2084
				1122	Private	Nahari	0.5554
				1123	Private	Chahi 1/Jav 1	0.1650
				1124/1	Private	Chahi 1	0.0370
				1124/2	Private	Chahi 1	
				1130	Private	Gai.Mu.Chah	0.0018
				1131	Private	Chahi 1	0.0500
				1132/1	Private	Nahari	0.0515
				1133	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.6050
				1134	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0102
				1349	Private	Barani 1	0.0232
				1350	Private	Barani 1	0.0470
				1351	Private	Barani 1	0.0415
				1352	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0621
				1352/1	Govt.	Gai.Mu.Abadi	
				1353	Private	Barani 1	0.0722
				1359/1	Private	Barani 1	0.0752
				1359	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.1252
				1360	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0482
				1361/1	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0995
				1361	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0714
				1362	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0422
				1363	Govt.	Gai.Mu.	0.0360
				1365	Govt.	Gai.Mu.Abadi	0.0725
				1365/1	Govt.	Gai.Mu.Abadi	
				Total			3.8841

[F. No. NHAI/31015/16/PIU/DAUSA/LA]
RAJESH GUPTA, Dy Secy.